

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2019—श्रावण 4, शक 1941

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.